



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216421
CG-DL-E-26022020-216421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941

No. 781]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

okf.kT; , oa m | kx e=ky;

okf.kT; foHkx½

fon's k 0; ki kj egkfuns' kky; ½

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

l a 48@2015&2020

fo"k; % 0; fDrxr l j {kk mi Ldj @ekLd dh fu; klr uhfr e= l 'skk/ku

dk-vk- 854½v½.—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर और मास्क के निर्यात से संबंधित vf/kl ipuk l a 47 fnukd 08-02-2020 e= fuEufyf[kr l hkk/ku करती है:—

Øe l a	vkbMhl h, p, l dkM	fooj .k	orëku uhfr
207ए	901850 901890 9020 392690 621790 630790	क्लोदिंग और मास्क [कोवरल्स (वर्ग 2/3/4) और एन 95 मास्क] सहित सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर। तथापि निम्नलिखित मदों का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है: 1. सर्जिकल मास्क/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई) 2. सभी दस्ताने, एनबीआर दस्तानों को छोड़कर 3. चिकित्सा संबंधी चशमों को छोड़कर आईटीसीएचएस 901850 के अंतर्गत सभी नेत्र यंत्र और उपकरण। 4. सर्जिकल ब्लेड्स 5. बिना बुने हुए शू-कवर्स (डिस्पोजेबल)	ifrcf/kr

		6. एयरमेन, गोताखोरों, पर्वतारोहियों अथवा फायरमैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सांस लेने के उपकरण 7. जहरीले वाष्प, धुएं, गैसों के निस्संदन हेतु रासायनिक अवशोषक युक्त गैस मास्क 8. एचडीपीई तिरपाल / प्लास्टिक तिरपाल 9. पीवीसी कन्वेयर बेल्ट 10. बायोप्सी पंच	
--	--	--	--

3- bl vf/kl ipuk dk i Hkko%

अधिसूचना सं. 47 दिनांक 08.02.2020 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उपर्युक्त क्रम सं. 1 से 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मर्दे मुक्त रूप से निर्यात के लिए अनुमत हैं। तथापि एन-95 मास्क सहित अन्य सभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों अथवा अन्य मर्दों जो उपर्युक्त अपवादों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, का निर्यात प्रतिबंधित रहेगा।

[फा. सं. 01/91/180/21/एम-20/ईसी]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2020

No. 48/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Personal Protection Equipment/Masks

S.O. 854(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification No. 47 dated 08.02.2020 related to export of Personal Protection Equipment and Masks:

Sl. No.	ITC HS Codes	Description	Present Policy
207 A		All Personal Protection Equipment including Clothing and Masks [Coveralls (Class 2/3/4) and N-95 Masks]. However, the following items are freely exportable:	Prohibited
		1. Surgical Masks/Disposable Masks (2/3 Ply)	
		2. All Gloves except NBR Gloves.	
		3. All Ophthalmic instruments and appliances under ITCHS 901850 except Medical Goggles	
	901850	4. Surgical Blades	
	901890	5. Non-Woven Shoe covers (Disposable)	
	9020	6. Breathing appliances used by Airmen, Divers, mountaineers or Firemen	
	392690	7. Gas Masks with chemical absorbent for filtration against poisonous vapour, smoke, gases	
	621790	8. HDPE Tarpaulin/Plastic Tarpaulin	
	630790	9. PVC conveyor belt	
		10. Biopsy Punch	

3. Effect of this Notification:

The Notification No. 47 dated 08.02.2020 is amended to the extent that the items specified under Serial No. 1 to 10 above are allowed freely for export. However, export of all other Personal Protection Equipment including N-95 masks or other items not specified in the exceptions above, shall remain Prohibited.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.